


उत्तराखण्ड शासन
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2
संख्या: 181 /XXXIV-2/2021/11/2020
देहरादून: दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

जनपद देहरादून में अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र(यू-सैक) के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, परियोजना प्रबंधक, ब्रिडकुल, देहरादून द्वारा गठित आंगणन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लगत रु0 158.67 लाख होने तथा वित्त व्यय समिति की परिधि से बाहर की योजनाओं/परियोजनाओं के प्रस्ताव/आंगणन, जिनकी लागत रु0 1.00 करोड़ से अधिक तथा रु0 5.00 करोड़ से कम हो, के संबंध में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-474 /2(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01.08.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् विभागीय योजना चयन समिति का गठन किया जाता है:-


1. अपर सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग), उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, (यू-सैक), देहरादून।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू-सैक, देहरादून।
5. कार्यदायी संस्था-परियोजना प्रबंधक, ब्रिडकुल, देहरादून।


(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

संख्या: 181 /XXXIV-2/2021/11/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
4. अपर सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग), उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी।
6. निदेशक, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, (यू-सैक), देहरादून।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू-सैक, देहरादून।
8. कार्यदायी संस्था-परियोजना प्रबंधक, ब्रिडकुल, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।


(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।